

XII
जीव विज्ञान

समय - 3 घण्टे

पूर्णांक - 60

नोट-

- सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
- आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखाचित्रों व चित्रों द्वारा कीजिए।

1. सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए-

- क) दब्ल्हर्नी पौधों की जड़ों में पाया जाता है-
 अ) राइजोबियम लेम्यूमिनोसेरम ब) एनाबीना
 स) बेसिलस द) उपरोक्त कोइनमें

Ques. ख) नियाग पाया जाता है-

- अ) पराग कण में ब) कैजाण्ड में
 स) भ्रूणपोष में द) उसभी
 ग) ठन्हर सिण्ड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है-

- अ) AAXO ब) AAXYY
 स) AAXXY द) AAXXX

घ) निम्न में संक्रामक रोग नहीं-

- अ) पीलिया ब) मलेरिया
 स) कैंसर द) हैंजा

2. क) निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है? 1

ख) मेन्डल छुग कराए गये द्विगुण संकरण में F_1 पीढ़ी में प्राप्त फीनोटाइप (लक्षण प्राप्त) बताइए।

ग) जब प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए।

घ) DNA खण्डों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 1

ड) शुक्राणु में एकोसोम काल्यामत्त्व है? 1

3. क) परागकण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी एक विशेषता बताइए। 1-1

ख) प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। 2

ग) प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। 2

घ) ग्राफियन पृष्टिका क्या है? अण्डोत्सर्ग में इनकी क्या भूमिका होती है? 1+1

इ) कोडॉन एवं एण्टीकोडॉन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 2

4. क) मानव नर जननांगों से सम्बन्धित सहायक ग्रन्थियाँ कौन-सी हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3

ख) आनुवंशिक कूट पर टिप्पणी लिखिए। 3

ग) प्रतिजैविक औषधियाँ क्या हैं? ये किन पादपों से प्राप्त होती हैं? उदाहरण सहित बताइए। 1+2

घ) RNA कितने प्रकार के होते हैं? t-RNA की संरचना का वर्णन कीजिए।

प्रृष्ठा ८

इ) व्यसन पर टिप्पणी लिखिए। 3

5. क) सहभोजिता का वर्णन कीजिए। 3

ख) धूणकोष के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। 3

ग) अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इसकी खोज किसने की? 3

घ) निम्न रोगों के रोगकारक के नाम बताइए- ½×5

अ) प्रलेरिया ब) सुजार्क च) अफ्रिकनिदायोग

द) फ्रीलपॉन द) द्राद

इ) एड्स क्या है? इसका विधाण शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका संचरण किस प्रकार होता है? 3

6. लिंग सहलान वंशागति क्या है? मनुष्य में हीमोफिलिया तथा वर्णान्धता की वंशागति का वर्णन कीजिए। 2+2+2

अथवा

ज) एकटन तथा नियमन का विस्तृत वर्णन कीजिए।

7. आनुवंशिकीय रूपान्तरित फसलों की उपयोगिता तथा सम्भावित हानियों का वर्णन कीजिए। 6

अथवा

मानव में युग्मक जनन को विस्तारपूर्वक समझाइए।